

## स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में कर्नाटक शीर्ष पर

### प्रलिमिस के लिये:

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, नवीकरणीय ऊर्जा, GDP।

### मेन्स के लिये:

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण।

### चर्चा में क्यों?

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) और एम्बर की एक रपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ विद्युत संक्रमण के संदर्भ में भारत में कर्नाटक एवं गुजरात अग्रणी राज्य हैं।

- IEEFA ऊर्जा बाजारों, प्रवृत्तयों और वनियों से संबंधित विषयों का विश्लेषण करता है, जबकि एम्बर एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी समूह है जो जलवायु और ऊर्जा संबंधी चतियों पर केंद्रित है।


### प्रमुख बातें

#### ■ मूल्यांकन की पद्धति:

- 'इंडियन स्टेट्स' एनर्जी ट्रांज़शन' रपोर्ट ने 16 राज्यों (भारत में विद्युत उत्पादन का 90% हस्सा) के लिये एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की है, और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन चार व्यापक मापदंडों पर किया जाता है:

- डीकार्बोनाइज़ेशन
- विद्युत प्रणाली का प्रदर्शन
- विद्युत पारस्थितिकी तंत्र की तैयारियाँ
- नीतियाँ और राजनीतिक प्रतिवेदन

# POWER PERFORMANCE ON STATE ELECTRICITY TRANSITION MODULE



1. Decarbonisation: Preparedness to shift away from fossil fuel-based power

2. Performance of power system: To create effective greener market pulls

3. Readiness of power ecosystem: To transform power systems while ensuring reliable supply

4. Policies and political commitments: Proactiveness in promoting innovative policies

\* Quartile 1 signifying the most efficient, and Quartile 4 the least

Source: IEEFA & EMBER ANALYSIS

II

## ■ मूल्यांकन:

- वशिलेषण कर्ये गए 16 राज्यों में से कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्वच्छ विद्युत संकरण के सभी चार आयामों में अच्छा स्कोर किया है।
  - साथ ही इन राज्यों ने स्मार्ट मीटर स्थापति करने के अपने लक्ष्य का 100% पूरा कर लिया है और फीडर लाइनों को अलग करने के अपने लक्ष्य से 16% अधिक कार्य किया।
- गुजरात अपने विद्युत क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के मामले में कर्नाटक से थोड़ा पीछे है। हरयाणा और पंजाब ने विद्युत संकरण के लिये आशाजनक तैयारी एवं कार्यान्वयन को दर्शाया है।
- पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस क्षेत्र में काफी पीछे हैं।
  - पश्चिम बंगाल ने सभी मापदंडों में कम स्कोर प्राप्त किया तथा उत्तरप्रदेश को इसके बकाया भुगतान में मार्च 2018 से मार्च 2022 तक 500% की वृद्धि हुई है।
- राजस्थान और तमिलनाडु को अपनी विद्युत प्रणाली की तैयारी में सुधार करने की आवश्यकता है।

## ■ सुझाव:

- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और भंडारण को बढ़ावा देने के अलावा यह सुझाव दिया गया है कि राज्यस्वच्छ विद्युत संकरण की दिशा में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाएँ, जिसमें मांग पक्ष के प्रयास शामिल हों।
- वर्चुअल पावर परचेज़ एप्रीमेट (VPPAs) तथा कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डफिरेंस (CfD) जैसे अभिनव द्विपक्षीय वित्तीय बाजार तंत्रों में जारी को खोलने एवं खरीदारों तथा नियमकों को आंतरायकि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से नपिटने हेतु आवश्यक आशवासन प्रदान करने की बड़ी क्षमता है।
- प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने तथा आवश्यक होने पर कार्यप्रणाली में सुधार के लिये इसनेडेटा उपलब्धता एवं पारदर्शता सुधार का आहवान किया।

## भारत का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य:

- अपने अंतर्राष्ट्रीय दायतित्वों के हस्तियों के रूप में भारत गैर-जीवाशम ईंधन स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लगभग आधा हस्तिया प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्तराधिकारी तीव्रता को 45% तक कम करने के लिये प्रतिबिधि है।
- इसे हासिल करना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य अपने बुनियादी ढाँचे में इस प्रकार परविरत्न करें कि इसका उपयोग विद्युत आपूर्ति हेतु किया जा सके, ताकि सौर, पवन, जलविद्युत जैसे कई स्रोतों के साथ-साथ मौजूदा जीवाशम ईंधन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को कुशलतापूर्वक समायोजित किया जा सके।
- भारत के संशोधित राष्ट्रीय सतर पर निधारति योगदान (NDC) ने देश में विद्युत क्षेत्र में लक्षित परविरत्न हेतु सही निश्चय लिये हैं।

# INDIA'S CLIMATE TARGETS: EXISTING AND NEW

Target (for 2030)	Existing: First NDC (2015)	New: Updated NDC (2022)	Progress
Emission intensity reduction	33-35 per cent from 2005 levels	45 per cent from 2005 levels	24 per cent reduction achieved in 2016 itself. Estimated to have reached 30 per cent
Share of non-fossil fuels in installed electricity capacity	40 per cent	50 per cent	41.5 per cent achieved by the end of June this year
Carbon sink	Creation of 2.5 to 3 billion tonnes of additional sink through afforestation	Same as earlier	Not clear.

## स्वच्छ उर्जा संक्रमण हेतु कये जा रहे प्रयासः

- प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना (सौभाग्य)
- ग्रीन एनरजी कॉर्डिनेटर (GEC)
- नेशनल समारट गरड़ मशिन (NSGM) और समारट मीटर नेशनल परोग्राम
- तीव्र गति से हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न: ?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. अभीष्ट राष्ट्रीय निधारति अंशदान पद को कभी-कभी समाचारों में कसि संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- (a) युद्ध प्रभावति मध्य पूर्व के शरणारथियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा दिये गए वचन  
 (b) जलवायु परविरतन का सामना करने के लिये वाशिंग के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना  
 (c) एशियाई अवसंरचना निविश बैंक की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा लिया गया पूँजी योगदान  
 (d) धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में वाशिंग के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 'इच्छिति राष्ट्रीय स्तर पर निधारति योगदान', UNFCCC के तहत पेरसि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिये व्यक्त की गई प्रतबिधिता को बताता है।
- CoP 21 में दुनिया भर के देशों ने सार्वजनिक रूप से उन कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की, जिन्हें वे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत

करयिन्वयति करना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर निधारति योगदान पेरसि समझौते के दीर्घकालकि लक्ष्य को प्राप्त करने की दशा में अग्रसर है जो "वैश्वकि औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमति करने के प्रयासों को बढ़ावा देता है और इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।"

अतः वकिलप (b) सही है।

प्रश्न. नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में CoP 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरति ग्राहि पहल का प्रयोजन संषट्क कीजयि। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में यह विचार पहली बार कब दयि गया था? (मुख्य परीक्षा, 2021)

## स्रोत: द हंडि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/karnataka-tops-at-clean-energy-transition>

